

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज

पर्यावरण जागरूकता में योग्यता संवर्धन अधिन्यास सत्र 2020-21

Assignment for the AECEA Program (Session 2020-21) 2nd semester

कोर्स कोड : Course Code: AECEA	कोर्स शीर्षक:- (Course Title) पर्यावरण जागरूकता में योग्यता संवर्धन Ability Enhancement Course in Environment Awareness	अधिकतम अंक : 30 Maximum Marks :30
---	--	--------------------------------------

Section-A

अधिकतम अंक: 18

Maximum Marks: 18

नोट : किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर 800 से 1000 शब्दों में लिखें।

Note: Answer any three questions. Each question should be answered in 800 to 1000 words.

Ques-1-पारितंत्र को परिभाषित कीजिए। पारितंत्र के विभिन्न घटकों की विवेचना कीजिए ?

Define Ecosystem. Discuss various components of ecosystem.

Qus. 2- जल प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव की विवेचना कीजिए ?

Discuss the impact of Water pollution on human health.

Qus. 3- वन संसाधन के आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व का वर्णन कीजिए ?

Describe the economic and environmental importance of forest resources.

Qus. 4- वायुमंडल में बढ़ते हरित गृह गैसों के पर्यावरणीय प्रभाव पर प्रकाश डालिए?

Throw light on the environmental impact of increasing Green house Gas in the atmosphere.

Qus. 5- भारत के विशेष सन्दर्भ में पर्यावरण पर नगरीकरण के प्रभाव का वर्णन कीजिए?

Discuss the effect of Urbanization on environment with special reference to India.

Section-B

नोट : किन्हीं छः प्रश्नों के उत्तर 200 से 300 शब्दों में लिखें।

अधिकतम अंक: 12

Maximum Marks: 12

Note: Answer any six questions. Each question should be answered in 200 to 300 words.

Qus. 6- पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह? (Energy flow in Ecosystem)

Qus. 7- पारिस्थितिक पिरामिड? (Ecological pyramids)

Qus. 8- वायु प्रदूषण? (Air Pollution)

Qus. 9- ओजोन परत? (Ozone layer)

Qus. 10- जैव विविधता? (Bio-diversity)

Qus. 11- भू-जीवीय रासायनिक चक्र (Bio-geo-chemical cycle)

Qus. 12-सौर ऊर्जा? (Solar Energy)

Qus. 13- क्योटो प्रोटोकाल? (Kyoto Protocol)